

## ग्लाइकोस्मसि एल्बीकार्पा

**भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI)** के वैज्ञानिकों की एक टीम ने तमलिनाडु में कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य से 'ग्लाइकोस्मसि एल्बीकार्पा' नाम की एक नई 'जनि बेरी' प्रजात की खोज की है।

- भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI), 1890 में स्थापित देश के जंगली पौधों संबंधी टैक्सोनॉमिक और फ्लोरिस्टिक अध्ययन करने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत शीर्ष अनुसंधान संगठन है।
- इसका उद्देश्य देश में जंगली पौधों का पता लगाना और आर्थिक गुणों वाले पौधों की प्रजातियों की पहचान करना है।



क्या है 'ग्लाइकोस्मसि एल्बीकार्पा'? //

- यह प्रजाति दक्षिणी पश्चिमी घाट के लिये स्थानिक है।
- यह प्रजाति ऑरेंज परिवार- 'रूटासी' से संबंधित है।
- इन टैक्सोनॉमिक समूहों के कई संबंधित पौधों का उपयोग उनके औषधीय मूल्य और भोजन के लिये किया जा रहा है।
- इन पौधों की सबसे अधिक प्रजातियाँ जंगलों से एकत्र की जाती हैं, मुख्यतः स्थानीय उपयोग के लिये भोजन और दवा के रूप में।
- ग्लाइकोस्मसि प्रजाति के जामुन में 'जनि सुगंध (Gin Aroma)' की अनूठी वसिषता होती है और यह एक खाद्य फल के रूप में लोकप्रिय है।
- इस प्रजाति के पौधे तिलियों और अन्य प्रजातियों के लार्वा को भी आश्रय प्रदान करते हैं।

### कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित प्रमुख बटु:

- कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य (Kanyakumari Wildlife Sanctuary), तमलिनाडु राज्य के कन्याकुमारी ज़िले में 402.4 कमी<sup>2</sup> का संरक्षित क्षेत्र है।
  - राज्य पुनर्गठन के परिणामस्वरूप 1 नवंबर, 1956 को कन्याकुमारी ज़िले के पुराने वनिकसि वनों/वर्जनि फारेस्ट (Virgin Forests) को केरल से तमलिनाडु राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया था।
- 1 अप्रैल, 1977 को कन्याकुमारी वन प्रभाग (Kanyakumari Forest Division) अस्तित्व में आया।
- कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य, कलककाड मुंडनथुराई टाइगर रज़िर्व (Kalakkad Mundanthurai Tiger Reserve) के निकटवर्ती क्षेत्रों और केरल राज्य के नेय्यर वन्यजीव अभयारण्य (Neyyar Wildlife Sanctuary) के साथ पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी छोर है।
  - यह बाघों का निवास स्थल है। इस जंगल से सात नदियाँ निकलती हैं।
- इस क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति दक्षिणी काँटेदार जंगलों, शुष्क परणपाती, नम परणपाती, अर्द्ध सदाबहार वनों से लेकर घास के मैदानों के साथ पहाड़ी में सदाबहार शोलास वन तक के बायोम का प्रतिनिधित्व करती है।
  - दक्षिण भारत के **शोला वनों** का नाम तमिल शब्द सोलाई से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'उष्णकटिबंधीय वर्षावन' है।
  - शोलास वन तमलिनाडु और केरल राज्यों में नीलगरि, अनामलाई, पलनी पहाड़ियों, कलककाड, मुंडनथुराई और कन्याकुमारी के ऊपरी इलाकों में पाए जाते हैं।
- यह क्षेत्र वन्यजीवों से अत्यधिक समृद्ध है, जिसमें **भारतीय बाइसन**, **हाथी**, **रॉक पायथन**, **शेर की पूँछ वाला मकाक** आदि विभिन्न प्रकार के

जानवर रहते हैं। यह क्षेत्र एवफ़ोना, सरीसृप और उभयचर जीव की दृष्टि से भी समृद्ध और वविधितापूर्ण है।

- भारतीय प्रायद्वीप का यह सरि उपमहाद्वीप के तीनों विशाल महासागरों - बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर से घरी एक अनूठा भौगोलिक क्षेत्र है।

## तमलिनाडु में संरक्षित क्षेत्र



वगित वर्षों के प्रश्न

हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जात की खोज की है जिसकी ऊँचाई लगभग 11 मीटर तक होती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का होता है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है?

- (a) अंडमान द्वीप
- (b) अन्नामलाई वन
- (c) मैकाल पहाड़ियाँ
- (d) पूर्वोत्तर उष्णकटिबंधीय वर्षावन

उत्तर: (a)

स्रोत- द हिंदू

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/glycosmis-albicarpa>

